

(आवेदक के माता/पिता/पति/संरक्षक द्वारा ली जाने वाली धोबणा)

मैं .. पुत्र/पुत्री/पत्नी .. धोबणा करता/करती हूँ कि नर पुत्र/पुत्री/पत्नी/आश्रित .. के उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में जो विवरण एवं सूचनाएं दी गई हैं तथा जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं, सही जानकारी में पूर्णतया सत्य एवं सही हैं। यदि इनमें किसी भी प्रकार का गलत तथ्य/दस्तावेज पाया जाता है तो मैं विभाग द्वारा जारी की गई छात्रवृत्ति राशि को ब्याज सहित वापस अना कराऊंगा/कराऊंगी एवं आवश्यक कानूनी कार्यवाही हेतु स्वयं जिम्मेदार होऊंगा/होऊंगी। उपरोक्त विवरण सही एवं सत्य है।

परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा प्राप्त उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का विवरण (यदि कोई है) दो से अधिक सदस्य की दशा में (केवल अ.पि. वर्ग के लिए)

छात्र/छात्रा का नाम	आवेदक से संबंध	शिक्षण संस्था का नाम	पाठ्यक्रम/कक्षा

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
(माता/पिता/पति/संरक्षक)

आवेदक संस्थान में हार्डकॉपी प्रस्तुत करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं को जांच लेवे (चैक लिस्ट)

1. 10वीं कक्षा की अंकतालिका/प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति	2. गत परीक्षा की अंकतालिका की सत्यापित प्रति
3. गैप शपथ पत्र (यदि गैप हो तो)	4. फीस की मूल रसीद/फीस जमा का विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संस्था द्वारा प्रमाणित
5. संक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (मध्य प्रेषण संख्या, दिनांक एवं सील) की सत्यापित प्रति	6. संक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (मध्य संख्या, दिनांक एवं सील) की सत्यापित प्रति
7. आय के सम्बन्ध में पिता/माता/पति/संरक्षक की वार्षिक आय का धोबणा पत्र	8. संरक्षक की आय धोबणा होने की दशा में माता/पिता/पति की पति का धृत्य प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
9. बैंक पासबुक की सत्यापित प्रति	10. आवेदन पत्र पर आवेदक तथा पिता/माता/पति/संरक्षक के हस्ताक्षर
12. आवेदन पत्र पर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मध्य सील एवं फोटो प्रमाणीकरण	13. अ.पि. वर्ग छात्रवृत्ति धोबणा हेतु डी.पी. एन. कार्ड के सम्बन्ध में विकास अधिकारी/अधिभाषी का प्रमाण पत्र एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र/विधवा/तलाकशुदा महिला का प्रमाण पत्र/विधवा का पुत्र अथवा पुत्री/तलाकशुदा महिला का पुत्र अथवा पुत्री होने का प्रमाण पत्र।
14. विवाहित महिला की दशा में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र व के आय का धोबणा पत्र की सत्यापित प्रति	15. स्वयं का स्थायी ढाक का पता अंकित कर दो पोस्टकार्ड संलग्न करें।
16. आवार संख्या की सत्यापित प्रति	17. अन्य (अवश्यकतानुसार)

(दस्तावेज उक्त क्रम में संलग्न कर, संख्या लिखें)
कुल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।

हस्ताक्षर आवेदक
दिनांक

संस्था द्वारा उद्घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि पुत्र/पुत्री श्री इस संस्थान के पाठ्यक्रम कक्षा का नियमित विद्यार्थी है एवं वह छात्रावासी/गैर छात्रावासी है। विद्यार्थी द्वारा प्रदत्त उपरोक्त जानकारी/सूचनाओं का संस्थान के रिकार्ड से मिलान कर लिया गया है और वह सही पाई गई है। यदि कोई सूचना गलत पाई जाती है तो विद्यार्थी के साथ-साथ संस्था भी उसका लिए जिम्मेदार होगी।

संस्था एवं पाठ्यक्रम संक्षम स्तर से अनुमोदित हैं। इस बावत आवश्यक कागजात विभागीय जिलाधिकारी (सांसाधन न्याय एवं अधिकारिता विभाग) के कार्यालय में संस्था/पाठ्यक्रम के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु दिनांक को प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

स्थान
दिनांक

संस्था प्रधान/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मध्य सील
संस्था का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नं.

छात्र/छात्रा के आवेदन पत्र की जांच की गई आवेदन पत्र की यत्सुस्थिति निम्नानुसार
 1. स्वीकृत, 2. अस्वीकृत 3. आक्षेप (आक्षेपों को विवरण अंकित करें)

- (i).....
 (ii).....
 (iii).....
 (iv).....
 (v).....
 (vi).....

चेक लिस्ट के अनुसार आक्षेप के क्रम संख्या

जांच हेतु जांच अधिकारी के आदेश संख्या..... आदेश दिनांक.....

हस्ताक्षर
 जाघकर्ता का नाम
 पदनाम
 दिनांक

(यहां से फाइल कर लेख्या द्वारा आवेदक को पत्ती दी जाये)

संस्था द्वारा आवेदक को दी जाने वाली रसीद

आवेदक श्री/श्रीमती/कु..... रिशा/पति श्री..... का
 पत्र..... में संस्था..... ने उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति
 आवेदन पत्र की हार्ड प्रति के साथ दिनांक..... को कुल..... दस्तावेज प्राप्त किये।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता कार्यालय
 नाम
 पदनाम
 मोबाईल नं०

प्रारूप भाग-I

अस्य का घोषणा पत्र

(पिता/माता/पति/पत्नि/सम्बन्धक द्वारा भरा जायेगा)

उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए

आवेदक सम्बन्धी आवश्यक सूचना(वैकल्पिक विन्दु का चयन करें)

छात्रवृत्ति योजना- अनु.जाति अनु.जन जाति अन्य पिछड़ा वर्ग विशेष पिछड़ा वर्ग आर्थिक पिछड़ा वर्ग

1. निवास स्थान का पूर्ण पता -

2. प्रार्थी का नाम पिता/पति का नाम श्री आयु... वर्ष... माह.....
राह जिला पिन

3. स्वयं/स्वयं की एवं पति की समस्त स्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरण -

(1) कृषि भूमि..... आदि से आय: रु.....	(2) पत्नि, सेवा लाभ, अनुदान, बिक्री आदि से आय: रु.....
(3) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी, आदि से आय: रु.....	(4) मशीनरी, किराये, दुकानदार, कारोबार व्यवसाय या ब्राँच/जम्माश से आय: रु.....
(5) अन्य स्रोतों से आय: रु.....	कुल वार्षिक आय: रु.....

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक

हस्ताक्षर

प्रार्थी का नाम व

प्रारूप भाग-II

दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण-पत्र

हम शपथपूर्वक बयान करते हैं कि प्रार्थी/प्राथियी पुत्र/पुत्री/पति श्री
निवासी को मंत्री प्रकार से जानते हैं। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार
की गई घोषणा के हम साक्षी हैं। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्राथियी के पास आय का
कोई अन्य स्रोत नहीं है।

(1) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति

नाम

(पद नाम मय दिनांक)

(2) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति

नाम

(पद नाम मय दिनांक)

नोट:- (उत्तरदायी व्यक्ति यथा-संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला जरिवद
सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/उप महापौर/नगर निगम/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पंच/वार्ड
मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिप्रेषण करवाए।)

प्रारूप भाग-III

मैं पुत्र/पुत्री/पति श्री शपथपूर्वक उदाघोषणा करता/करती
हूँ कि मेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नि को(जो भी लागू)समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रु..... अक्षरों रु.....
..... है। उक्त शपथ-पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं धुपाया
गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ-पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उदाघोषित
वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता

प्रारूप भाग-IV

प्रामाणीकरण

उपरोक्त शपथकर्ता का नाम पति/पति का नाम

आयु.....

निवासी

..... ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक
उक्तानुसार अभिवक्त किया है, जिसे प्रामाणीकृत की पहचान

के द्वारा की गई।

हस्ताक्षर मय सील

प्रामाणीकरण अधिकारी

(जामवालक गांधीनगर/संकेतलदार/राज्य
तहसीलदार/नगर विकास के अधिकारी/वार्ड
पंच/ऑथर कमिश्नर/राजकीय अधिकारी/
अन्य प्राधिकृत अधिकारी) का नाम व पद पर पुनः

नोट-

- राज्य विभाग द्वारा दिनांक 09.09.2012 को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत आय घोषणा भी मान्य होगी।
- आवेदक के पिता/पिता/सम्बन्धक के राज्य/केंद्र सरकार की सेवा में होना पर नियोजित द्वारा जारी आय घोषणा पत्र व पति/पति का कार्य 16 की प्रति सत्यापन करे।

Government of Rajasthan Social Justice, Empowerment and Social Security Department Post Matric Scholarship Form (Online Application)				
Application Number		Fresh Application	Scheme	Post Matric Scholarship Category

Personal Detail

Name	Gender M/F	Student Latest Photograph tested by H/O Institution									
Father's Name	Mother's Name										
Annual Income	Date of Birth										
Category SC/ST/OBC/SBC ([कत])	<table border="1" style="width: 100px;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>										
Special Abled	Religion	<table border="1" style="width: 100px;"> <tr> <td>Married</td> <td>UnMarried</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Married	UnMarried							
Married	UnMarried										
10 th Class Detail Year----- Roll No.-----	Marital Status ([कत])										
Board-----											
BPL No [For OBC Category] No-----											

Academic Details

Institute	Academic year
Course/Branch	Tehsil/District
Class/	Enrollment/
Hostler Type	Class Roll No.
Admission Date	Last Exam Percentage
	Class of last Exam

Details of permanent residence - Bonafide

Correspondence village/ Town	Permanent ward/ mohalla.....
Address	Address.....
Tehsil	Pin code.....
Distt.	Telephone.....
Contact Number	E-mail Address

Bank Details

Bank Name	Bank IFSC Code																				
Branch Location & Address	Branch Name																				
	Account Number																				
	<table border="1" style="width: 150px;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>																				
Fill Up Every digit careful																					

Declaration

I.....S/o hereby declare that the information given in the application form are true as per best of my knowledge and belief. I also undertake that if, at any stage, it is found to the satisfaction of the sanction authority, that the information given by me is false, the entire amount of scholarship will be recover from as arrears of Land Revenue and other law in force apart from such penal action as warranted by law. I have not applied for in receipt of any other scholarship from Govt. of India/Govt. of Rajasthan.

Place:

Signature of Applicant

Date:

आवेदन संख्या शैक्षणिक सत्र छात्रवृत्ति योजना.....
घात्र/घात्रा का नाम..... दिना का नाम